



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14112024-258663
CG-DL-E-14112024-258663

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खंड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 910]
No. 910]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 14, 2024/कार्तिक 23, 1946
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 14, 2024/KARTIKA 23, 1946

द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2024

सं. 1-सीए(5)/75ए/2024.—भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की अधिसूचना संख्या 1-सीए(5)/75/2024 में, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख, 27 सितंबर, 2024 को प्रकाशित किया गया था और जिसमें संस्थान की 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष होने वाले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखा अंतर्विष्ट थे, हिंदी पाठ में कतिपय प्रारूपण/संशोधन/संशोधन संबंधी त्रुटियां पाई गई हैं। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार इन त्रुटियों को इस शुद्धिपत्र के माध्यम से ठीक किया जाता है :-

- पृष्ठ 44 और 45-बिन्दु सं. 6.7 के क्रम सं. (v) – प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की सारणी में, स्तंभ सं. (4) में दिए गए आंकड़े सुमेलित नहीं हैं और वे संबंधित मदों के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, अतः, सभी आंकड़ों को क्रमशः तत्संबंधी मदों के साथ पढ़ा जाए।
- पृष्ठ 61-बिन्दु सं. 6.14 के क्रम सं. (II) की पहली बुलेट में, पंक्ति “(57वें संस्करण) से संबंधित सांख्यिकीय जानकारी निम्नानुसार है” मुद्रित नहीं है और अब उसे उक्त बुलेट बिन्दु में दी गई सारणी के ऊपर पढ़ा जाए।

3. पृष्ठ 85-बिन्दु सं. 6.19 के क्रम सं. (II) में, पैरा के ऊपर मुद्रित इन्वर्टिड कोमा का लोप किया जाए।
4. पृष्ठ 138 और 139-बिन्दु सं. 8.6 के क्रम सं. (III) में, पृष्ठ सं 138 में मुद्रित यूडीआईएन सृजित से संबंधित सारणी को पृष्ठ सं 139 में उक्त क्रम सं. के अंतिम पैरा के ऊपर पढ़ा जाए।
5. पृष्ठ 162- एमसीक्यू पेपर प्रैक्टिस असेसमेंट डैशबोर्ड की सारणी को, "30 जून, 2024 को एमसीक्यू पेपर प्रैक्टिस असेसमेंट डैशबोर्ड के आंकड़े निम्नानुसार हैं" पंक्ति के पश्चात् पढ़ा जाए।
6. पृष्ठ 180-परिषद की संरचना में,
 - (i) बिंदु सं. A.1.1 और A.1.2 दो परिषद सदस्यों के नामों से पूर्व मुद्रित हुए हैं, उनका लोप किया जाए।
 - (ii) बिंदु A.1.3 और A.1.4 दो नगरों के नामों से पूर्व मुद्रित हुए हैं, उनका लोप किया जाए।
 - (iii) दो परिषद सदस्यों और दो नगरों के नामों को रेखांकित किया गया है, उनका रेखांकन हटा दिया जाए।
7. पृष्ठ 182-
 - (क) "परिषद" शब्द और "भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान" शब्द एक पंक्ति में मुद्रित हुए हैं, उन्हें दो भिन्न-भिन्न पंक्तियों में पढ़ा जाए।
 - (ख) "राय के लिए आधार" शीर्षक के अधीन, एसए शब्द को एसएसएस के रूप में पढ़ा जाए।
8. पृष्ठ 183- "वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के लिए संपरीक्षक के उत्तरदायित्व" शीर्षक के अधीन, पहले दो पैराओं में "एसए" शब्द मुद्रित हैं उन्हें अब एसएसएस के रूप में पढ़ा जाए।
9. पृष्ठ 184- "अन्य विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के अधीन संख्यांकन को क्रमशः क), ख), ग) और घ) के रूप में पढ़ा जाए।
10. पृष्ठ 185- तुलन पत्र की सारणी के ऊपर, "लाख रुपए में" शब्दों को "रुपए लाख में" शब्दों के रूप में पढ़ा जाए।
11. पृष्ठ 186, 188 और 189-
 - क) "महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और संलग्न टिप्पण 1 से 34 वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं" पंक्ति को, "संलग्न टिप्पण 1 से 34 वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं" पंक्ति के रूप में पढ़ा जाए।
 - ख) उपाध्यक्ष का नाम दो पंक्तियों में मुद्रित हुआ है, इसे अब एक ही पंक्ति में एक साथ पढ़ा जाए।
12. पृष्ठ 191- टिप्पण 2.06 –
 - क) "आरक्षितियों में विनियोग और उद्धिष्ट निधियों को आबंटन" टिप्पण के शीर्ष को "निधियों को विनियोग" के रूप में पढ़ा जाए।
 - ख) क्रम सं. iv) – प्रवेश और दाखिला फीस में संख्या 2/3 मुद्रित नहीं हुई है, इसे अब "भाग" शब्द से पहले पढ़ा जाए।
13. पृष्ठ 197- टिप्पण #03 – साधारण निधि की सारणी में, "उपयोजता/परिवर्धन" ब्लॉक मुद्रित नहीं हुआ है और इसे अब "वर्ष के अंत में अतिशेष" के अंतिम ब्लॉक के पूर्व निम्नानुसार पढ़ा जाए :

विशिष्टियाँ	31 मार्च को यथाविद्यमान	साधारण निधि	शिक्षा निधि	अवसंरचना निधि	आईटीटी निधि	अन्य निधियाँ	योग
उपयोजता/परिवर्धन	2024	-	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-	-

14. पृष्ठ 198- टिप्पण 04# अभिहित निधियां की सारणी से ऊपर, “लाख रुपए में” शब्दों को “रुपए लाख में” पढ़ा जाए।
15. पृष्ठ 199- टिप्पण # 05 - निर्बंधित निधियां की सारणी के ऊपर,
- (क) शब्द “लाख रुपए में” सुमेलित नहीं हैं, उन्हें दायीं ओर सुमेलित रूप में पढ़ा जाए।
- (ख) “लाख रुपए में” शब्दों को “रुपए लाख में” शब्दों के रूप में पढ़ा जाए।
16. पृष्ठ 200-
- क) टिप्पण # 07 : प्रावधान की सारणी से ऊपर “रुपए लाख में” शब्द मुद्रित नहीं हुए हैं और उन्हें अब दायीं ओर सुमेलित रूप में पढ़ा जाए।
- ख) टिप्पण # 08 में, टिप्पण के शीर्षक “व्यापार संबन्धी देय” शब्दों को “देय” शब्द के रूप में पढ़ा जाए।
17. पृष्ठ 202-
- क) टिप्पण # 10 : संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की सारणी से ऊपर “लाख रुपए में” शब्दों को “रुपए लाख में” शब्दों के रूप में पढ़ा जाए।
- ख) टिप्पण # 10- संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की सारणी में, कुछ संख्याओं के अंतिम दो अंक अगली पंक्ति में मुद्रित हुए हैं और इसलिए, उक्त सारणी के सही संख्याओं को अब निम्नानुसार पढ़ा जाए :
- “सकल ब्लॉक” शीर्षक के अधीन स्तंभ सं (11) में “योग” से संबंधित संख्याओं को, जो मद “1 अप्रैल 2023 को”, “1 अप्रैल 2022 को”, “31 मार्च 2024 को” तथा “31 मार्च 2023 को” के सामने मुद्रित है, क्रमशः “106251”, “100237”, “111744” और “106251” के रूप में पढ़ा जाए।
18. पृष्ठ 204, 205 और 207- टिप्पण # 13 – निवेश के स्तंभ (2) में “अंकित मूल्य” शब्दों को “बही मूल्य” शब्दों के रूप में पढ़ा जाए।
19. पृष्ठ 208- टिप्पण #13- निवेश की क्रम सं. आ (I)(क), के क्रम संख्या 3 में “जस्थान” को “राजस्थान” के रूप में पढ़ा जाए।
20. पृष्ठ 209-
- क) टिप्पण #18 के शीर्षक, “नकद और नकद समतुल्य” को “नकद और बैंक अतिशेष” के रूप में पढ़ा जाए।
- ख) टिप्पण #18, टिप्पण #19 के शीर्षक सुमेलित नहीं हैं, उन्हें अब बायीं ओर सुमेलित रूप में पढ़ा जाए।
21. पृष्ठ 210 और 211- टिप्पण #21 और टिप्पण #22 के शीर्षक सुमेलित नहीं हैं, उन्हें अब बायीं ओर सुमेलित रूप में पढ़ा जाए।
22. पृष्ठ 212-
- (क) टिप्पण #26 से टिप्पण #28 के शीर्षक सुमेलित नहीं हैं, उन्हें अब बायीं ओर सुमेलित रूप में पढ़ा जाए।
- (ख) टिप्पण # 28 - निर्बंधित निधियों की सारणी में, बिन्दु 1 और 2 मुद्रित हुए हैं, उन्हें अब क) और ख) के रूप में पढ़ा जाए।
23. पृष्ठ 213-
- क) सारणी के ऊपर “रुपए लाख में” शब्द मुद्रित नहीं हुए हैं और उन्हें अब दायीं ओर पढ़ा जाए।

- ख) सारणी में, बिन्दु सं. 6 में, “ शक्ति और ईंधन” शब्द दो भिन्न-भिन्न पंक्तियों में मुद्रित हुए उन्हें अब एकसाथ एक ही पंक्ति में पढ़ा जाए।

24. पृष्ठ 214-

- क) सारणी के ऊपर “रुपए लाख में” शब्द मुद्रित नहीं हुए हैं और उन्हें अब दायीं ओर “पढ़ा जाए।
- ख) टिप्पण 30.01 में क. के ऊपर दायीं ओर “लाख रुपए में” शब्दों को “रुपए लाख में” शब्दों के रूप में पढ़ा जाए।

25. पृष्ठ 216- टिप्पण 31.01 की सारणी के ऊपर “लाख रुपए में” शब्दों को “रुपए लाख में” शब्दों के रूप में पढ़ा जाए।

26. पृष्ठ 217-

- क) सारणी के ऊपर “रुपए लाख में” शब्द मुद्रित नहीं हुए हैं और उन्हें अब दायीं ओर पढ़ा जाए।
- ख) टिप्पण 31.02 में-
- (i) क्रम सं. 2ग में- वित्तीय वर्ष 2023-24 और वर्ष 2022-23 में बीमांकिक लाभ/ (हानि) को क्रमशः 41 और शून्य के रूप में पढ़ा जाए।
- (ii) क्रम सं. 2घ में- वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2022-23 में संस्थान द्वारा किए गए अभिदाय को क्रमशः शून्य और 15,600 के रूप में पढ़ा जाए।
- (iii) क्रम सं. 2ङ में- वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2022-23 में संदत्त फायदों को क्रमशः (563) और (7532) के रूप में पढ़ा जाए।

27. पृष्ठ 218-

- क) सारणी के ऊपर “रुपए लाख में” शब्द मुद्रित नहीं हुए हैं और उन्हें अब दायीं ओर पढ़ा जाए।
- ख) नोट 31.02 में -
- (i) क्रम सं. 4ग में - वित्तीय वर्ष 2023-24 में बीमांकिक लाभ/(हानि) को 161 के रूप में पढ़ा जाए।
- (ii) क्रम सं. 4घ में - वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्ष के दौरान माने गए व्यय को 355 के रूप में पढ़ा जाए।

28. पृष्ठ 219- उपाध्यक्ष का नाम दो पंक्तियों में मुद्रित हुआ है, इसे अब एक ही पंक्ति में एक साथ पढ़ा जाए।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./677/2024-25]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 7th November, 2024

No. 1-CA(5)/75A/2024.—In the Notification No.1-CA(5)/75/2024 dated 27th September, 2024 published in Part III- Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary dated 27th September, 2024 of the Institute of Chartered Accountants of India containing Annual Report and Audited Accounts of the Institute for the year ended 31st March, 2024, certain formatting/alignment/printing errors were noticed in English version. These errors as per details given below, are hereby rectified by way of this Corrigendum:-

1. Page 299- In fifth bullet point of point No.6.28, the words “National Stock Exchange of India” is underlined, the same be now read as without underlined.
2. Page 309- The numbering of the Point “Capacity Building Programme for members” is missing, the same be now read as (III).
3. Page 358- In the composition of the Council,
 - (i) the points A.1.5 and A.1.6 are appearing before names of two Council members, the same be now read as deleted.
 - (ii) the points A.1.7 and A.1.8 are appearing before names of two cities, the same be now read as deleted.
 - (iii) Names of two council members and two cities are underlined the same be now read as without underlined.
4. Page 362-
 - a) The word “Sd/-“ is not appearing above the names of auditors, the same be now read above the names.
 - b) The date appearing beneath the names of the auditors be read as 17th September, 2024 instead of 17th September, 2023.
 - c) In the table for Balance Sheet, the figures in columns (4) & (5) against the item “Non-current liabilities” at point no. 2 of Sl.No. I in column no.(2) are not aligned and therefore, the same be read as centre aligned.
5. Page 363-
 - a) The word “Sd/-“ is not appearing above the names of auditors, the same be now read above the names.
 - b) The comma is appearing after the word “Partner”, the same be read as deleted.
 - c) The date appearing beneath the names of the auditors be read as 17th September, 2024 instead of 17th September, 2023.
6. Page 364-
 - a) The word “Sd/-“ is not appearing above the names of auditors, the same be now read above the names.
 - b) The comma is appearing after the word “Partner”, the same be read as deleted.
 - c) The date appearing beneath the names of the auditors be read as 17th September, 2024 instead of 17th September, 2023.
 - d) In table for Statement of Cash Flows, in Sl. No. I- Cash Flow from Operating activities, in column (2) under the heading- Adjustments for (increase)/decrease in operating assets, the words “Long-term Loans and advances” are appearing in two different lines, the same be now read together in one line.
7. Page 365-
 - a) The word “Sd/-“ is not appearing above the names of auditors, the same be now read above the names.
 - b) The comma is appearing after the word “Partner”, the same be read as deleted.
 - c) The date appearing beneath the names of the auditors be now read as 17th September, 2024 instead of 17th September, 2023.
8. Page 367 & 368- In the Note 2.10- Depreciation and amortization, the figures appearing in the table are not aligned and therefore, the same be read as right aligned.
9. Page 371- In the table for Note #03- General Funds, the block towards “Utilization/Addition” is not appearing, the same be now read as under before last block of “Balance at the end of the year”:

Particulars	As at March 31	General Fund	Education Fund	Infrastructure Fund	ITT Fund	Other Funds	Total
Utilisation/Addition	2024	-	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-	-

10. Page 372- In the table for Note # 04- Designated Funds, the figures in columns (3) to (10) for the year 2023 against the item “Balances at the end of year” are not aligned and therefore, the same be read as right aligned.
11. Page 374 –In the table for Note #- 08 Payables, in Column (2) and (3) for (e) point, – (dash) be read for 31 March 2024 and 31 March 2023.
12. Page 378 to 380-
 - a) In the table for Note #13- Investments, in Column (2), the words “Face value” are appearing, the same be now read as “Book Value”.
 - b) In the table for Note # 14- Inventories, the words “Stationery & Stores” are not aligned and therefore, the same be read as left aligned.
13. Page no. 381– Note # 18- Cash & Bank Balances, in point A- Cash and Cash equivalents, the Sub-Total (A) is not aligned and therefore, the same be read as left aligned.
14. Page 383- In the table for Note # 28- Restricted funds, the points 1 & 2 are appearing, the same be now read as a) & b).
15. Page 386- In the Note 31-
 - (i) the words “Employee Benefits” and “Defined Benefit Plans” are appearing in the same line, the same be now read in two different lines.
 - (ii) The words, “The Institute has provided the following defined benefit plans to its” are appearing in first line and the word “employees” is appearing in second line, the same be now read together in one line.
16. Page 387- In note 31.02-
 - (i) the word “Contd.” is appearing above the first table and after the words “Details of the Post Retirement Plans”, the same be now read as deleted.
 - (ii) In Sl.No.2c.-the actuarial gain/ (loss) in financial year 2023-24 and 2022-23 be read as 41 and Nil respectively.
 - (iii) In Sl.No.2d.- the contributions made by the Institute in financial year 2023-24 and 2022-23 be read as Nil and 15,600 respectively.
 - (iv) In Sl.No.2e.- Benefits paid in financial year 2023-24 and 2022-23 be read as (563) and (7532) respectively.
17. Page 388-
 - a) Above the table, “rupees in Lakhs” are not appearing, and the same be now read as “rupees in Lakhs” on right side.
 - b) In note 31.02-
 - (i) In Sl. No.4c. - the actuarial gain/ (loss) in financial year 2023-24 be read as 161.
 - (ii) In Sl. No.4d. - the expenses recognised during the year in financial year 2023-24 be read as 355.
 - c) In Note 31.03-
 - (i) the word “Contd” is appearing above the table and after the words “Employee Benefits”, the same be now read as deleted.
 - (ii) the words “Employee Benefits” and “Details of Leave Encashment” are appearing in the same line, the same be now read in two different lines.
 - (iii) The following line is appearing above Point 4- Assumptions, the same be now read as deleted:

Description	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
-------------	---------	---------	---------	---------

18. Page 389-

- The word “Sd/-” is not appearing above the names of auditors, the same be now read above the names.
- The comma is appearing after the word “Partner”, the same be read as deleted.
- The date appearing beneath the names of the auditors be now read as 17th September, 2024 instead of 17th September, 2023.
- At end of annual accounts, the name of the President is appearing, the same be now read as CA. (Dr.) Jai Kumar Batra, Secretary.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./677/2024-25]